



दिनांक 31/08/2022

जनपद अम्बेडकरनगर थाना मालीपुर पुलिस व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा दो शातिर मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार कर कुल 06 अदद मोटरसाइकिल बरामद की।

अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मालीपुर पुलिस टीम मय स्वाट टीम के क्षेत्र भ्रमण व क्षेत्र देखभाल व रात्रि गश्त मे नेम पुर घाट पर थे कि मुखबिर द्वार सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति एक चोरी की मोटरसाइकिल हीरो स्पेलेण्डर से दोस्तपुर की तरफ से नेमपुर की तरफ आने वाले है। मुखबिर की सूचना पर मालीपुर पुलिस टीम व स्वाट टीम संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की सघन चेकिंग करने लगे। समय करीब 20.15 बजे एक मोटर साइकिल पर दो व्यक्ति दोस्तपुर जनपद सुल्तानपुर की तरफ से आ रहे थे। पुलिस को देखकर मोटरसाइकिल पीछे मोड़कर भागने का प्रयास किये तो मोटरसाइकिल गिर गई। पुलिस टीम द्वारा उक्त व्यक्तियों को घेराबन्दी कर हिरासत में लिया गया व नाम पता पूछते हुए भागने का कारण पूछा गया तो एक व्यक्ति ने अपना नाम प्रशान्त पाण्डेय उर्फ ऋषि पुत्र श्रीराम पाण्डेय नि0 आदमपुर थाना जहागीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम अभिषेक कुमार पुत्र सर्वजीत निवासी एनवा थाना जहागीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर बताया तथा दोनो ने बताया कि ये मोटरसाइकिल चोरी की है। इसलिए भागने का प्रयास कर रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से कड़ाई से पूछने पर बताया हमारे पास और भी चोरी की मोटरसाइकिल है जिन्हे हम लोगो ने ग्राम सैरपुर भितरी थाना मालीपुर जनपद अम्बेडकरनगर में बन्द पड़े राईस मील के गोदाम में छिपाकर रखी है। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों की निशान देही पर ग्राम सैरपुर भितरी उपरोक्त में सडक किनारे बन्द पडी राइस मील से पांच अदद मोटरसाइकिल बरामद को बरामद किया गया। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 203/2022 धारा 411 भादवि पंजीकृत कर उपरोक्त अभियुक्तो को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

विवरण गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1-प्रशान्त उर्फ ऋषि पुत्र श्रीराम पाण्डेय नि0 आदमपुर थाना जहागीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर।
2. अभिषेक कुमार पुत्र सर्वजीत निवासी एनवा थाना जहागीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर।

विवरण पंजीकृत अभियोग-

- 1.मु0अ0सं0-203/22 धारा-411 भादवि।

विवरण बरामदगी-

- 01-एक अदद मोटरसाइकिल हीरो होण्डा सीडी डिलक्स बिना नम्बर की (रंग काला व लाल)।
- 02-एक अदद मोटरसाइकिल बजाज सीटी-100 बी बिना नम्बर की (रंग काला व नीला)।
- 03-एक अदद हीरो स्पेलेण्डर प्लस यू0पी0-58-वाई- 4020 (रंग काला)
- 04-एक अदद हीरो स्पेलेण्डर प्लस बिना नम्बर की (रंग काला व लाल)
- 05-एक अदद मोटरसाइकिल हीरो होण्डा स्पेलेण्डर प्रो यू0पी0-45 जे0-2059 (रंग काला व नीला)
- 06-एक अदद मोटरसाइकिल हीरो एचएफ डिलक्स यू0पी0-62 बीआर-5323 (रंग काला व लाल)

विवरण गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

- 1-थानाध्यक्ष श्री चन्द्रभान यादव
2. का0 रोहित पटेल
- 3.का0 अंकित यादव
- 4.का0 सूरज
5. का0 बृजेश
6. का0 प्रभात मौर्या (स्वाट टीम)
7. का0 पुनीत गुप्ता (स्वाट टीम)
8. का0 सुनील (स्वाट टीम)
9. का0 विकास ओझा (स्वाट टीम)